

S Chand And Company Limited

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-Operative Industrial Estate, New Delhi - 110044, India.

P:+91 11 4973 1800 | F:+91 11 4973 1801 | E:info@schandgroup.com | www.schandgroup.com |

Date: May 26, 2022

То

Listing Department

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai, Maharashtra 400001

To

Listing Department,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla

Complex, Bandra (E), Mumbai, Maharashtra

400051

Dear Sir,

Re: Intimation under Regulation 30 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Pursuant to the provisions of Regulations 30 of the Listing Regulations, please find attached the copies of the advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers on May 26, 2022 with respect to the audited standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2022.

Request you to kindly take note of the above intimation.

Thanking You.

For S Chand And Company Limited

Jagdeep Singh

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No. A15028

Address: A-27, 2nd Floor,

Mohan Co-operative Industrial Estate,

New Delhi-110044

Encl. as above

FINANCIAL EXPRESS

NOTICE BOARD CORPORATE ASSOCIATE DIARY | APPOINTMENTS, MOVEMENTS, CELEBRATION, HONOURS

UPDATE: (JNPA)

Union Minister, MoPSW, Shri Sarbananda Sonowal visits JNPA

The Union Minister, MoPSW, Shri Sarbanand Sonwal, visited Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), India's best-performing Port, to inaugurate DFC Compliant Rail Yard constructed and the recently renovated Administration Building at JNPA. He also launched the First Sustainability report and reviewed various infrastructure and developmental projects at the Port.

On the occasion, Union Minister, MoPSW Shri Sarbananda Sonowal stated, "Congratulations to JNPA for

successfully stepping into 33rd year. JNPA plays a very significant role in all the initiatives like PM Gati Shakti National Master Plan, Sagarmala, MIV 2030, etc., by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. The dedication and contribution of JNPA over the last three decades has resulted in it being a globally recognized port."

Apprising the Union Minister, MoPSW, on the various projects, Shri Sanjay Sethi, IAS, Chairman, JNPA, said, "There are several ongoing infrastructural and other developmental projects, green port initiatives at JNPA that will result in an increase in J N Port's business and

eventually boost the nation's EXIM trade. All our projects align with the ministry's initiatives enabling multimodal connectivity, reduction in logistics cost and ease of doing business."

JNPA is committed to contributing to the nation's economic growth trajectory. The Port has been consistently working to break down barriers to the movement of goods and services and support deeper integration into global supply chains by providing the best mechanisms and being the Port of choice.

UPDATE: (FICCI) Ministry of Tourism has sanctioned ten projects under **Coastal thematic circuits**

Shri Gangapuram Kishan Reddy, Minister of Tourism, Culture and Development of Northeastern Region, Government of India, said that cruise tourism is one of the most vibrant and fast-growing sectors of the leisure and travel industry. The promotion of coastal tourism through beach tourism, lighthouse tourism, and cruise tourism will help communities such as fishing communities to



find other livelihood opportunities and supplement their income. The government has recognised cruise tourism as a niche tourism product to attract tourists", the minister said while alluding to the initiatives for the sector. The minister said that under the Swadesh Darshan projects under coastal thematic circuits worth Rs.

scheme, the Ministry of Tourism has sanctioned ten 648.80 crore across various States / Union Territories. The government has also sanctioned 228.61 crores for various projects on developing cruise terminals and related infrastructure at major

ports under the "Assistance to Central Agencies for

UPDATE: (NIA) NIA launched New Travel product viz OVERSEAS TRAVEL **EASE POLICY**

Tourism Infrastructure Development" scheme.

The New India Assurance Company Limited, the Largest Multinational General Insurance Company has launched New Travel product viz OVERSEAS TRAVEL EASE POLICY offering comprehensive coverages.

The policy comes at a time when International



travel has accelerated after the relaxation of travel norms post COVID pandemic. As per reports, seven million people travelled last year and it is expected to increase by 25% this year.

Ms. Madhulika Bhaskar, General Manager stated that product has come at the most appropriate time during her address at the launch function.

The Product is designed to meet contingencies during overseas travel viz Medical exigencies, baggage loss, missed connection, emergency financial assistance, trip cancellation to name a few. The product offers sum insured ranging from USD 25,000 to USD 500,000 and covering travel worldwide. It is competitively priced making the product attractive.

UPDATE: (HPCL) HPCL profit for FY 2021-22 at ⊠ 6,383 crore, Revenue up by 38%

The year 2021-22 has been a remarkable year with world economies recovering back strongly from the lows of Covid Pandemic on improved vaccine coverage and adoption of covid appropriate behavior. Energy Consumption – a key indicator of economic activity staged a smart comeback with consumption gradually moving towards pre-pandemic levels. In line with sharp rebound in economic activities in India during FY22, the domestic sales of petroleum products also recovered from the lows of FY21 (190 MMT) and touched 205 MMT during FY22. Against this background HPCL reported its highest ever quarterly sales revenue of Rs. 1,04,942 crore (Q4 PY Rs. 84,905 crore) an increase of 24% with a Profit after Tax of Rs. 1,795 Crore. The company also reported its highest ever Annual sales revenue of Rs. 3,72,642 crore (PY Rs.2,69,243 crore) a growth of 38% with a Profit after Tax (PAT) of Rs. 6,383 crore.

UPDATE: (MPA) MPA concludes photo exhibition on the occasion of Independence Day

The Mumbai Port Authority, while gearing up to

mark 150th anniversary of Independence, is implementing an initiative to present the glorious history of progress and achievements on the occasion of Platinum Jubilee of Independence year. The Mumbai Port Authority has organized a Photo Exhibition titled "Gateway to History" which was inaugurated at the hands of Shri. Sarbananda Sonowal, the Union Minister for Ports, shipping, and Waterways & AYUSH. He said that India in celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav with loyalty. We have completed 75 years of Independence. Various Ministries and departments are making efforts to celebrate this programme. Mumbai Port



was a 'Trust' earlier but now transformed into an "Authority". From 1872 to June 26, 2022 making their 150th Anniversary, they are displaying their history

in form of Photographs in the exhibition, which I have inaugurated just now. I am sure that this 7 days photo exhibition will receive a good response from the public. Shri Rajeev Jalota, Chairman, Mumbai Port Authority, has made tremendous efforts to celebrate "Azadi Ka Amrit Mahotsav" in a distinct way by presenting 150 years of history to the people.

UPDATE: (DOP)

A Special Carried Cover on Golden Jubilee of 12951 Mumbai New Delhi Rajdhani Express was released by Smt. Veena Srinivas, Chief Postmaster General Maharashtra Circle at Mumbai Central on 17.05.2022, in the presence of Shri Ashok Kumar Mehta, IRS, Principal Chief Commissioner, CGST and Shri G V L Satya Kumar, Divisional Railway Manager, Mumbai Central. Another similar Special Carried Cover will be released in Delhi tomorrow and will be carried to Mumbai by the return train. The Rajdhani Express has set a benchmark in terms of punctuality in service, luxury in amenities and incorporation of cutting-edge technology in rail transport. Because of its reliability and high standards of convenience Rajdhani Express has always been a favourite among passengers. The last 50 years of brilliant track record reflects upon the efficiency and professionalism of Indian Railways. This special cover will be a valuable souvenir for all those who continue to enjoy this wonderful service.

UPDATE: (CR) GM, Central Railway addresses **Mechanical Engineers** Conference

Shri Anil Kumar Lahoti, General Manager, Central Railway reviewed the performance of Workshops and train maintenance on Divisions during the Rolling Stock Unit In-charge' Conference held on 19th-20th May 2022. Shri. A. K. Gupta, Principal Chief Mechanical Engineer, Heads of Rolling Stock Department, Chief Workshop Managers of Matunga, Parel, Sanpada, Kurduwadi Workshops and Senior Divisional Mechanical and Electrical Engineers from Mumbai, Pune, Bhusaval, Nagpur and Solapur Divisions heading maintenance of Mail / Express Trains, EMU suburban services and Freight trains attended the conference. The General Manager,



exhorted all Unit Heads to continue their contribution in environment and cleaning areas which has resulted in Central Railway's winning the

Indian Railway's Environment and Cleanliness Shield this year- a rare hat-trick of wins!!. He also released a Rolling Stock Yearly Booklet 2021-22 with Shri B.K. Dadabhoy, Additional General Manager and Shri A.K. Gupta, Principal Chief Mechanical Engineer.

UPDATE: (WR)

Anti-terrorism day observed over western railway Anti-Terrorism Day was observed on Western

Railway where Shri Prakash Butani – General Manager (In-Charge) of Western Railway administered the anti-terrorism day pledge to the Principal Heads of Departments, officers, and staff at Western Railway's Headquarters, Churchgate.

Shri Butani administered the pledge to solemnly affirm to oppose with strength, all forms of terrorism and violence. The pledge also induced to uphold and promote peace, social harmony, and



understanding among all fellow human beings and fight the forces of disruption threatening human lives and values and have abiding faith in the country's tradition of non-violence and tolerance.

UPDATE: (WR) WR's RPF apprehends thief at andheri station

Western Railway's Railway Protection Force (RPF) personnel are always at the forefront to protect and secure the lives of passengers. In yet another instance of keen surveillance, WR's RPF team caught a thief with stolen mobile phone. According to a press release issued by Shri Sumit Thakur - Chief Public Relations Officer of Western Railway, in a case on 18th May, 2022 Railway Protection Force Crime Prevention and Detection Squad (CPDS), Andheri staff Head Constable Naveen, Constable Ankit and Constable Anuj Gurjar observed a suspected person jumping from Borivali slow train at Andheri platform no. 03. CPDS team acting immediately chased the suspect and took him to RPF Post, Andheri. Meanwhile, one passenger also arrived at the post and reported snatching of his mobile phone when he was traveling in Borivali slow train. He further went on to identify the apprehended person as being the same person who had snatched his phone. On checking the suspect's pocket a VIVO mobile was found. He disclosed his name as M D Rafikul Sheikh Ansrali, age 26 yrs and accepted snatching of passenger mobile.

EVENTS, ANNOUNCEMENT, LAUNCHES, CSR INITIATIVES, APPOINTMENTS, MOVEMENTS, CELEBRATION

पंजाब नैश्नाल बैंक 🚺 punjab national bank SHARE DEPARTMENT, BOARD & CO-ORDINATION DIVISION PLOT No. 4, DWARKA SECTOR-10, NEW DELHI-110075 Email Id: hosd@pnb.co.in, Tel # 011-28044857 PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that Share Certificate(s) of the Bank mentioned below has been

reported lost/misplaced/stolen and the registered holder(s) thereof / claimant(s) thereto has requested for issue of duplicate share certificate(s): Sr. Name of Shareholder (s) Folio No. Certificate Distinctive No. No. of

No.			No.	of Shares	Shares
1.	HITASH KUMAR MAHAJAN JT-1 SULAKSHANA MAHAJAN	0134228	8211	6828991-6829490	500
ln oo			Manager and American		(a) for

issuance of duplicate certificate(s) in favour of the above stated shareholder(s)/ claimant(s), he/she/they should lodge their claim or objection within 15 days of the date of publication of this Notice. If within 15 days from the date hereof no claim is received by the Bank in respect of the said certificate(s), duplicate share certificate(s)/letter of confirmation will be issued. The public is hereby cautioned against dealing in any way with the above mentioned certificate(s).

For Punjab National Bank

Date: 25.05.2022 Place: New Delhi

(Ekta Pasricha) Company Secretary

Beejay Ads, Opera House Phone : 23692926 / 56051035. Phone : 2305 4894. Mobile : 9892011371. 14garambha Aaverus. Girgaon, Phone : 2386 8065. Mobile : 9869074144. Бусина (£), Phone : 23748048 / 23714748. FCA Communications, CENTRAL MUMBAI Aaryan Publicity Dadar (E), Phone: 022-65881876 Mobile: 9320111876 Fulrani Advtg. & Mktg. Antop Hill Phone: 24159061 Mobile: 9769238274/ 9969408835 B. Y. Padhye Publicity Services, Dadar (W), Phone: 2422 9241/ 2422 0445. Ganesh Advertising, Abdul Rehman Stree Phone: 2342 9163 / 2341 4596 DATEY Advertising, Datey Bhavan, Dadar (W) Mobole: 8452846979/ 9930949817 J.K. Advertisers, Hornimal Circle, Fort. Phone : 22663742. Hook Advertainment Dadar Mobile : 8691800888 Mani's Agencies, Opp.G.P.O. Fort. Phone: 2263 00232. Mobile: 9892091257. Central Advertising Agency, Mahim (W), Phone: 24468656 / 24465555

CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI

Manjyot Ads, Currey Road (E) Phone: 24700338. Mobile: 9820460262. OM Sai Ram Advtg., Currery Road Mobile: 9967375573 Pinto Advertising

Sarjan Advertising, Tardeo, Phone : 66626983 Sanjeet Communication Fort. Phone : 40024682/ 40792205.

S. Arts Advtg. Masjid

Charudatta Advertising, Mahim (W), Phone : 24221461 Jay Publicity, Dadar (E), Phone : 24124640 Pallavi Advtg. Dadar (W), Mobile: 9869109765 Shree Swami Samarth Advertising, Dadar (W), Phone : 24440631 Mobile : 9869131962 Stylus Arts, Dadar (W), Phone : 24304897

Time Advertising,

Matunga (W), Phone : 2446 6191

Vijaya Agencies, Dadar (W), Phone : 2422 5672.

ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED zydus (Formerly known as Cadila Healthcare Limited) [CIN L24230GJ1995PLC025878]

Regd. Office: Zydus Corporate Park, Scheme No. 63, Survey No. 536, Near Vaishnodevi Circle, Khoraj (Gandhinagar), Sarkhej - Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 382481. Website : www.zydusife.com Email: investor.grievance@zyduslife.com Telephone: +91-79-48040000

NOTICE

Notice is hereby given that the Company has received intimation from the following shareholder that the Share Certificate pertaining to the Equity Shares held by him as per the details given below has been lost / misplaced.

Sr.	Name of the	Distinctive	Folio	No. of	Certificate
No.	shareholder	Numbers	Number	Shares	No.
1.	Deepak Rasiklal Shah Rekha Deepak Shah	702851-703600	003051	750	359

If the Company does not receive any objection within 7 days from the date of publication of this notice, the Company will proceed to issue duplicate Share Certificate to the aforesaid shareholder. People are hereby cautioned not to deal with the above Share Certificate anymore and the Company will not be responsible for any loss / damage occurring thereby.

Date: May 25, 2022 Place: Ahmedabad

For, ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED (Formerly known as Cadila Healthcare Limited)

Sd/- DHAVAL N. SONI

COMPANY SECRETARY

Gujarat NRE Coke Limited – in Liquidation PUBLIC NOTICE OF AUCTION

Notice is hereby given by the undersigned to the public in general that the below mentioned assets and items owned by Gujarat NRE Coke Limited - in Liquidation ("GNCL"), is being sold 'via e-Auction' under the terms and conditions specified below. The sale is without any kind of warranties and indemnities.

Re-auction of unsold items/assets and its terms will be announced through the website of the corporate debtor and shall not be published in any newspaper. Potential Bidders are required to visit www.gujaratnrecoke.com to keep themselves updated regarding all such subsequent auction dates and time.

Auction Date and Time Assets / Items for Sale

Inspection

Set of Power Plant Equipments (Collectively) of Gujarat NRE Coke Limited (in Liquidation) at Dharwad, Karnataka, the details of which are available on the website www.gujaratnrecoke.com Participating in All interested buyers must adhere to the relevant and applicable Terms and Conditions or Process Memorandum (as the case may

within the last 5 minutes before the closure of the auction.

Friday, June 10, 2022 from 11:00 AM to 5:00 PM. Each auction

will have an unlimited extension of "5 minutes" i.e. the end time of the

e-Auction will be extended by 5 minutes each time if bid is made

the Auction be) as specified on the website www.gujaratnrecoke.com Last date for 05:00 PM on Thursday June 09, 2022 submission of EMD

> To schedule inspection, please write to liquidator.gncl@decoderesolvency.com with details requesting the same.

All interested bidders are advised to contact the undersigned only by email, by writing to liquidator.gncl@decoderesolvency.com, no other modes of communication would be entertained.

sumit_binani@hotmail.com Place: Kolkata IBBI Registration Number: Date: May 26, 2022 IBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025



financialexp.epapr.in

S CHAND AND COMPANY LIMITED

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi 110044, India Email: investors@schandgroup.com; Website: www.schandgroup.com; Phone: +91 11 49731800 Fax: +91 11 49731801 CIN: L22219DL1970PLC005400

Extracts of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and year ended 31st March, 2022 (₹. in millions)

S.				Standalone			Consolidated				
No.		Quarter ended			Year ended		Quarter ended			Year ended	
		31-Mar-22	31-Dec-21	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Dec-21	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	1,268.58	181.38	1,072.85	1,889.74	1,646.59	3,467.06	519.61	2,923.96	4,952.77	4,453.48
2	Profit/(loss) before exceptional items and tax	423.23	(173.13)	367.00	117.26	37.00	1,285.96	(505.51)	1,126.78	57.72	2.21
3	Profit/(loss) before tax	423.23	(173.13)	362.00	117.26	32.00	1,273.88	(505.51)	1,124.35	45.64	(0.22)
4	Profit/(loss) for the period/year (after tax)	384.67	(173.13)	352.24	88.70	22.24	1,253.31	(447.41)	976.71	80.40	(64.93)
5	Total comprehensive income for the period /year (comprising profit/(loss) and other comprehensive income for the period/year)	385.56	(173.58)	350.87	91.82	29.19	1,257.32	(446.49)	978.21	87.29	(47.82)
6	Equity Share capital	175.22	175.22	174.88	175.22	174.88	175.22	175.22	174.88	175.22	174.88
7	Reserves and surplus (excluding Revaluation Reserves) of the previous year	N.A	N.A	N.A	7,788.33	7,682.65	NA	NA	NA	8,139.20	8,008.00
8	Earnings/(loss) per share (in ₹)	500000		2.50			3030				
	- Basic	10.98	(4.94)	10.07	2.53	0.64	35.76	(12.77)	27.93	2.29	(1.86)
	- Diluted	10.98	(4.94)	10.07	2.53	0.64	35.76	(12.77)	27.93	2.29	(1.86)

1. The Auditors draw attention to note 11 of the Statement which states that, the Company as a non-current investment in DS Digital Private Limited ('DS Digital'), a subsidiary of the Company amounting to INR 247.78 million (net of impairment of INR 55 million), and has loans and trade/ other receivables recoverable from such subsidiary company amounting to INR 149.56 million and INR 48.65 million, respectively, as at 31st March 2022. DS Digital has been incurring operational losses since earlier years as a result of which the net worth of such subsidiary company has been completely eroded. Management, based on their internal assessment, has assessed that the aforesaid recoverable balances are fully recoverable as at 31st March 2022 and hence, no adjustments are required to be made to the accompanying financial results. However, in absence of sufficient and appropriate evidence to support management's assessment as above, the Auditors were unable to comment on the appropriateness of the carrying value of the aforesaid recoverable balances as at 31st March 2022 and the consequential impact thereof on the accompanying standalone financial results for the guarter and year ended 31st March 2022.

2. The above is an extract of detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the Quarterly and yearly Financial Results are available on the Company's website www.schandgroup.com and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and The National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

The Audited standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on May 24, 2022 and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on May 24, 2022.

For and on behalf of the Board of Directors S Chand And Company Limited

> Himanshu Gupta Managing Director DIN: 00054015



NRB INDUSTRIAL BEARINGS LIMITED

CIN No. L29253MH2011PLC213963 Regd. Office: Dhannur, 2nd Floor, 15 Sir P.M. Road, Fort, Mumbai 400001. Tel.: 022-2270 4206: Fax No.: 022-2270 4207 Email: investorcare@nibl.in; Website: www.nrbindustrialbearings.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE THREE AND TWELVE MONTHS ENDED MARCH 31, 2022

		Standalone	Consolidated				
Particulars	3 months ended	Corresponding 3 months ended	Year to date 12 months ended	3 months ended	Corresponding 3 months ended	Year to date 12 months ended	
	31,03,22	31.03.21	31.03.22	31,03.22	31.03.21	31.03.22	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total income from operations	2,052.52	1,963.12	7,072.66	2,052.52	1,963.12	7,072.66	
Loss before tax and exceptional item	(131.82)	(172.41)	(982.31)	(131.82)	(172.41)	(982.31)	
Exceptional Item - (Gain)	*	*	-			70.000 mag	
Profit/(Loss) after tax and exceptional item	(131.82)	(172.41)	(982.31)	(131.82)	(172.41)	(982.31)	
Share of Profit/(Loss) of associate Loss after tax and after share of Profit of		8		(13.92)	(6.98)	(27.25)	
associate	(131.82)	(172.41)	(982.31)	(145.74)	(179.39)	(1,009.56)	
Other Comprehensive Income (OCI)	30.94	(110.05)	17.07	45.98	(109.49)	15.13	
Total Comprehensive Income for the period Paid-up equity share capital	(162.76)	(62.36)	(999.38)	(191.72)	(69.91)	(1,024.69	
(Face value of the share Rs. 2/- each) Earnings per share of Rs. 2 each: (not annualised):	484.61	484.61	484.61	484.61	484.61	484.61	
Basic and Diluted (In Rs.)	(0.54)	(0.71)	(4.05)	(0.60)	(0.74)	(4.17)	

1. The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone Financial Results for the three and twelve months ended March 31, 2022 and Consolidated Financial Results for the three and twelve months ended March 31, 2022, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.nrbindustrialbearings.com.

2. The above standalone and consolidated financial results of the company and its associates for the three and twelve months ended March 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee, approved by the Board of Directors at its meeting held on May 24, 2022.

D. S. Sahney

Chairman and Managing Director

Date: May 24, 2022

Place: Mumbai

(Formerly Known as Globus Constructors & Developers Limited)

CIN: L40300RJ1985PLC047105 E-mail: globuscdl@gmail.com Ph: 0141-4025631 Regd Off: Shyam House, Plot No 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 Corp Off: A-60, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028

Extracts of Audited Financial Results for the Quarter & Year Ended 31st March 2022

S. NO.	PARTICULARS	3 months ended	Corresponding 3 months ended	Year to Date
		31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022
		(1)	(2)	(3)
		Reviewed	Reviewed	Audited
1.	Total Income from Operations	0.00	0.00	0.00
2.	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax,Exceptional items)	(17.60)	(15.71)	(54.20)
3.	Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	(146.91)	(2280.24)	(183.51)
4.	Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after Exceptional items)	(146.91)	(2285.73)	(183.51)
5.	Total Comprehensive Income for the year(comprising Profit/(Loss) for	21.12	(1886.12)	(66.65)
	the period (after Tax) and Other Comprehensive Income(after tax))			
6.	Equity Share Capital (Paid up) (Face Value of the share Rs.10/-each)	9,894.85	9,894.85	9,894.85
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserves as per Audited Balance	(8670.77)	(8604.13)	(8670.77)
	Sheet of previous accounting year)			
8.	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (not annualised)			
	a) Basic	0.02	(1.91)	(0.07)
	b) Diluted	0.02	(1.91)	(0.07)

1. The Financial Results for the guarter ended 31.03.2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 25th May, 2022. The said results has been reviewed by the Statutory Auditor of the Company.

2. The above is an extract of the detailed format of the Quarter ended 31.03.2022 financial results filed with stock exchange pursuant to Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Full format of these results, are available on the stock exchange website BSE www.bseindia.com and on Company's website www.gpgl.in.

By order of the Board For Globus Power Generation Limited

S CHAND AND COMPANY LIMITED

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi 110044, India Email: investors@schandgroup.com; Website: www.schandgroup.com; Phone: +91 11 49731800 Fax: +91 11 49731801 CIN: L22219DL1970PLC005400

Year ended

31-Mar-21

Audited

1,646.59

37.00

32.00

22.24

29.19

174.88

0.64

0.64

7,682.65

31-Mar-22

Audited

3,467.06

1,285.96

1,273.88

1,253.31

1,257.32

175.22

35.76

35.76

31-Mar-22

Audited

1.889.74

117.26

117.26

88.70

91.82

175.22

7.788.33

2.53

2.53

Extracts of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2022

Standalone

31-Mar-21

Audited

1.072.85

367.00

362.00

352.24

350.87

174.88

N.A

10.07

10.07

1. The Auditors draw attention to note 11 of the Statement which states that, the Company as a non-current investment in DS Digital Private Limited ('DS Digital'), a subsidiary of the Company amounting to INR 247.78 million (net of impairment of INR 55 million), and has loans and trade/ other receivables recoverable from such subsidiary company amounting to INR 149.56 million and INR 48.65 million, respectively, as at 31st March 2022. DS Digital has been incurring operational losses since earlier years as a result of which the net worth of such subsidiary company has been completely eroded. Management, based on their internal assessment, has assessed that the aforesaid recoverable balances are fully recoverable as at 31st March 2022 and hence, no adjustments are required to be made to the accompanying financial results. However, in absence of sufficient and appropriate evidence to support management's assessment as above, the Auditors were unable to comment on the appropriateness of the carrying value of the aforesaid recoverable

2. The above is an extract of detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and yearly Financial Results are available on the Company's website www.schandgroup.com and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and The National Stock

3. The Audited standalone and consolidated financial results for the guarter and year ended March 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on May 24, 2022 and have been approved and

Quarter ended

31-Dec-21

Unaudited

181.38

(173.13)

(173.13)

(173.13)

(173.58)

175.22

(4.94)

(4.94)

balances as at 31st March 2022 and the consequential impact thereof on the accompanying standalone financial results for the guarter and year ended 31st March 2022.

N.A

31-Mar-22

Audited

1,268.58

423.23

423.23

384.67

385.56

175.22

N.A

10.98

10.98

Director

शुद्धिपत्र कृपया टैलब्रस इंजीनियरिंग लिमिटेड के 31 मार 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लेखापरीक्ष वित्तीय परिणामों का संदर्भ ग्रहण करें जिनका प्रक ाशन 24 मई 2022 को इस समाचार-पत्र में हअ था। इस संबंध में सर्वसाधारण को अवगत करान है कि पंक्ति क्रमांक 2 एवं 3 में अवधि हेत् निवल लाभ / (हानि) तथा कर पूर्व अवधि हेत् निवत लाभ / (हानि) विवरण के 31.03.2022 को समा होनेवाले वर्षारंभ से आज तक / अवधि वाले स्तंभ प्रविष्ट / प्रकाशित आंकडों को ''2922'' के स्थान प ''2922.20'' पढा जाए।

फॉर्म डब्ल्यूआईएन 6 [नियम ७ देखें] माननीय क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष इंटीग्रेटेड टांस लॉग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी) कंपनी याचिका सं. -2/RD(NR)/361/Integrated Trans/2022

इस प्रकार हुई असुविधा के लिए खेद है।

याचिका नोटिस का विज्ञापन एतदद्वारा सचित किया जाता है कि उक्त कंपनी द्वारा उक्त क्षेत्रीय निदेशक को दिनांक 4 अप्रैल 2022 के दिन क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली उपरोक्त नामित कंपनी के समापन-सारांश लिए एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और उत्त याचिका को 10 जून 2022 के दिन क्षेत्रीय निद

शक के समक्ष सुनवाई के लिए निर्देशित किया

गया है। कोई भी अंशदाता या अन्य व्यक्ति जो उक्त याचिका पर आदेश देने का समर्थन या विरोध करना चाहता है, वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि को अपने या उसके प्रतिनिधि द्वारा उसके नाम और पते के साथ हस्ताक्षरित अपने इरादे के बारे मे नोटिस भेजना चाहिए ताकि यह याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि के पास याचिका की सुनवाई के लिए तय की गई तारीख और इस प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत रूप से या उसके प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई हेतु पेश होने से पांच दिन पहले पहुंच जाये। याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वार किसी भी लेनदार या अंशदाता को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रस्तुत की जाएगी। याचिका के विरोध में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी हलफनामे को क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष प्रस्तत किया जाना चाहिए और उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम पांच दिन पहले दी जानी चाहिए।

हस्ता / — यशवंत सिंह चौहान याचिकाकर्ता कंपनी के प्रतिनिधि कंपनी का पंजीकृत पताः 205, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर-6, मुख्य बाजार, द्वारका, नई दिल्ली, पिनः 110075, भारत

संपर्क नंबर: 91-9988410727

(₹. in millions)

31-Mar-21

Audited

4,453,48

2.21

(0.22)

(64.93)

(47.82)

174.88

8.008.00

(1.86)

(1.86)

Year ended

31-Mar-22

Audited

4.952.77

57.72

45.64

80.40

87.29

175.22

2.29

2.29

For and on behalf of the Board of Directors

S Chand And Company Limited

Himanshu Gupta

DIN: 00054015

Managing Director

8.139.20

Consolidated

31-Mar-21

Audited

2.923.96

1,126.78

1,124.35

976.71

978.21

174.88

27.93

27.93

Quarter ended

31-Dec-21

Unaudited

519.61

(505.51)

(505.51)

(447.41)

(446.49)

175.22

(12.77)

(12.77)

कार्यालय ग्राम पंचायत कुम्हरौर विकास खण्ड-राजेपुर (फर्रुखाबाद)। पत्रांक: 7/मनरेगा/टेण्डर प्रकाशन/2022

निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अल्प कालीन निविदा सूचना

राज्य वित्त एवं 15 वॉ वित्त आयोग / महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की स्वीकृति कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हेत कार्यस्थल पर सामिग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25/05/2022 से 01/06/2022 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में निविदा विक्रय की जायेगी एवं दिनांक 01/06/2022 शाम 04:00 बजे निर्माण समिति के समक्ष खोली जायेगी।

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री का	अनु० लागत	निविदा प्रपत्र	कार्य पूर्ण होने
		विवरण	(लाख मे)	का मूल्य	का अनुमानित
		(लाख में)			समय
1	सम्राट विक्रमादित्य परमार जी अमृत सरोवर निमाण कार्य	23,72,074/-	23,72,074/-	500/-	
2	ग्राम पंचायत कुम्हरौर में पार्क निर्माण कार्य	13,12,683/-	13,12,683/-	500/-	8
3	अरविन्द के घर से राम नरेश के घर तक (कुम्हरौर) 3.5 मी. चौड़ी लम्बाई–80 मी.	3,98,779/-	3,98,779/-	500/-	
4	गया प्रसाद के घर से राजू के घर तक (कुम्हरौर) 4 मी. चौड़ी लम्बाई-100 मी.	3,98,779/-	3,98,779/-	500/-	
5	मुरारी के घर से सत्यपाल के घर तक (कुम्हरौर) 4 मी. चौड़ी लम्बाई-70 मी.	3,93,047/-	3,93,047/-	500/-	
6	मुन्नु के घर से अंकित की बैठक तक (कुम्हरौर) 4 मी. चौड़ी लम्बाई-60 मी.		3,51,894/-	500/-	
7	अंकित की बैठक से संजय के घर तक (कुम्हरौर) 4 मी. चौड़ी लम्बाई–90 मी.	3,92,158/-	3,92,158/-	500/-	

निविदा दाता का जीएस॰टी॰ व आयकर में पंजीकरण होना आवश्यक है। धरोहर राशि एफ॰डी॰आर॰ व एम॰एस॰सी॰ व चेक द्वारा ली जायेगी।

प्रदीप दीक्षित

MIRCH TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED

Registered Office: B-701, 7th Floor, Aurus Chambers, S.S. Amrutwar Marg, Worli, Mumbai, Maharashtra- 400013, India Corporate Identification Number (CIN): L27290MH1972PLC016127 Tel: 022-24979758, 022-24909003, 9821042687; Email: uvwtskl@gmail.com; Website: www.mirchtechnologies.com

(hereinafter referred to as "Acquirer"), to the public shareholders of the Target Company under Regulation 3(1) and 4 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (hereinafter referred to as "SEBI SAST Regulations")

	5.00						
Date	25 th May, 2022						
Name of the Target Company	Mirch Technologies (India) Limited						
Details of the Offer pertaining to Target Company	This Offer is being made pursuant to Regulation 3(1) & 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI SAST Regulations") for acquisition of upto 2,08,000 Equity Shares of Rs.10/- each at an Offer Price of Rs. 10/- per equity share, payable in cash, aggregating to Rs. 20,80,000 (Rupees Twenty Lakh Eighty Thousand Only) representing 26% of the issued, subscribed, paid up and voting capital						
Name of the Acquirers	Mr. Pankajkumar Patel						
Name of the Manager to the Offer	Finshore Management Services Limited						
Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	Mr. Natwarlal Rameshwarlal Somani – Chairman Mrs. Kajal Dilip Kulshrestha – Member						
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity Shares owned, and other contract/relationship), if any.	All the members of the IDC are Directors of the Target Company and have no other relationship with the Target Company.						
Trading in the Equity Shares/ other securities of the Target Company by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of the Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer on March 11, 2022 and till the date of this recommendation.						
IDC Member's relationship with the Acquirers (Director, Equity Shares owned, and other contract/relationship), if any.	None of the IDC members holds any contracts nor have any relationship with the Acquirer						
Trading in the Equity Shares/ other securities of the Acquirer by IDC Members	Not applicable as the Acquirer is an Individual.						
Recommendation on Open Offer, as to whether the Offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations.						
Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed	All the IDC members unanimously voted in favour of recommending the open offer proposal.						
Summary of reasons for recommendation	IDC Members have reviewed a. Public Announcement (PA) dated March 11, 2022 b. Detailed Public Statement (DPS) published on March 21, 2022 c. Draft Letter of Offer dated March 26, 2022 d. SEBI observation letter dated May 19, 2022 e. Letter of Offer (LOF) dated May 20, 2022 Based on review of the above documents the members of the IDC are of the view that the offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI SAST Regulations.						
Details of the Independent Advisors, if any	None						
Any other matter to the highlighted	None						

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of

Natwarlal Rameshwarlal Somani

ions of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Mirch Technologies (India) Limite (hereinafter referred to as "Target Company") in relation to the Open Offer ("Offer") made by Mr. Pankajkumar Patel

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI SAST Regulations.

Mirch Technologies (India) Limited

Place: Mumbai, Maharashtra Date: 25th May, 2022

Chairman of IDC

RELIGARE ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74899DL1984PLC146935

Regd. Office: 1st Floor, P-14, 45/90, P-Block, Connaught Place, New Delhi -110001

	न.	का नाम			स.						
1.	0392	नवीन कुमार गुप्ता	24240-24247	2423101-2423900	800						
		कुल	8		800						
यदि किसी व्यक्ति का उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दावा हो, वे इस सूचना											
के प्रक	के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर डी-348, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 में स्थित इसके कॉर्पोरेट										
कार्याल	कार्यालय में कम्पनी ऑप्सिमस इंफ्राकाम लिमिटेड के पास ऐसे दावे दाखिल करें या info@optiemus.com										
			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 								

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड

CIN: L64200DL1993PLC054086

पंजीकृत कार्यालय: के -20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर - 11, नई दिल्ली-110024 कॉर्पोरेट कार्यालय: डी-348, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307

वेबसाइट: www.optiemus.com | ईमेल: info@optiemus.com | फोन: 011-29840906

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न शेयर प्रमाणपत्रों के खो जाने स्थानच्यत हो जायेगी सचना मिली है तथा इन शेयर प्रमात्रपत्रों के धारकों ने डिप्लिकेट शेयर प्रकाशन जारी करने के लिये कम्पनी के पास आवेदन किया है:

taken on record by the Board of Directors at its meeting held on May 24, 2022.

पर लिखे जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं की जाएगी तथा कम्पनी इप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कदम उठाएगी। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के लिए विकास चन्टा दिनांक : 25 मई, 2022

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी स्थान : दिल्ली

इन्टेक कैपिटल लि. पंजी. कार्यालय: 708, मंजूशा बिल्डिंग, 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(2)] कब्जा सचना

क्रम सं पोलियो शेयर धारक (को) प्रमाणपत्र सं.

Date: 25.05.2022

Place: NEW DELHI

Particulars

3 Profit/(loss) before tax

6 Equity Share capital

Basic

Diluted

Date: May 24, 2022 Place: New Delhi

optiemus

Notes:

Total Income from operations

income for the period/year)

Reserves) of the previous year 8 Earnings/(loss) per share (in ₹)

2 Profit/(loss) before exceptional items and tax

Total comprehensive income for the period /year

Reserves and surplus (excluding Revaluation

Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

(comprising profit/(loss) and other comprehensive

4 Profit/(loss) for the period/year (after tax).

No.

जैसा कि. वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत इन्टेक कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22.2.2022 जारी कर ऋणधारक मै. आनंद माउल्डस एंड डायज (ऋणधारक) द्वारा उसके प्रॉप्सईटर श्री परमानंद शर्मा, परमानंद शर्मा (गारंटर), पुनम शर्मा (गारंटर/मार्टगैजर) को ऋण खाता सं LNNHP03315-160005673 तिथि 30.5.2015 तथा LNNHP04916-170006726 तिथि 31.05.2016 के संदर्भ में सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 18.02.2022 को रु. 23.55.455/- (रु. तैईस लाख पचपन हजार चार सौ पचपन मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/मार्टगैजर/गारंटर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/मार्टगैजर/गारंटर्स तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज. 24 मई, 2022 को इन्टेक कैपिटल लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय | 18.02.2022 को रु. 23.55.455/- (रु. तैईस लाख पचपन हजार चार सौ पचपन मात्र) के लिये दस्रेक कैपिरल लि. के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ

में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण ग्राम कराला (684 शिव मंदिर ब्लॉक) दिल्ली-110086 में स्थित तीर्थांकर नगर, जैन कॉलोनी के नाम से विदित आबादी में खसरा नं. 80/2 में प्लॉट नं. 684, माप 50 वर्ग यार्ड्स

(12 *37.1/2 ') पर निर्मित सम्पत्ति। चौहदीः उत्तरः प्लॉट नं. 684/बी, दक्षिणः प्लॉट नं. 683 पूर्वः 25 फीट रोड पश्चिमः प्लॉट नं. 684/ए प्राधिकत अधिकारी तिथि: 24.5.2022

इन्टेक कैपिटल लि

स्थान: दिल्ली

www.readwhere.com

Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2022 (Rs. in Lakhs, unless otherwise stated)

				Standalone					Consolidated	ſ,		
		Quarter Ended		Year E	nded	Quarter Ended			Year E	nded		
	Particulars	March 31, December 2022 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021		
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1	Total Revenue from Operations	577.33	154.44	193.34	1,777.32	616.62	95,256.45	82,722.17	75,317.10	3,22,362.20	2,49,245.45	
2	Net Profit / (Loss) for the quarter / year (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items, and share in loss of joint venture)	(667.51)	(215.13)	(247.98)	(2,680.93)	6,434.93	(6,338.61)	(25,018.37)	(8,719.12)	(1,03,095.63)	(49,737.70)	
3	Net Profit / (Loss) for the quarter / year before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items and share in loss of joint enture)	(667.51)	(215.13)	(247.98)	(2,680.93)	6,434.93	(6,346.96)	(25,018.96)	(8,719.64)	(1,03,105.28)	(49,746.11)	
4	Total Comprehensive Income for the quarter/ year (after Tax and non-Controlling Interest)	(674.13)	(160.35)	(539.89)	(2,622.26)	6,441.39	(63,628.80)	(24,789.45)	(10,357.83)	(1,56,599.87)	(48,689.06)	
5	Equity Share Capital (Paid-up)	31,880.93	31,838.58	25,941.39	31,880.93	25,941.39	31,880.93	31,838.58	25,941.39	31,880.93	25,941.39	
6	Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	N.A.	N.A.	N.A.	1,81,924.54	1,31,976.19	N.A.	N.A.	N.A.	(1,30,107.77)	(30,650.03)	
7	Earnings Per Share (EPS) before and after extraordinary items (of Rs 10/- each, fully paid up)				6				10			
	a. Basic EPS (Rs)	(0.14)	(0.05)	(0.21)	(0.86)	2.47	(19.21)	(7.84)	(3.46)	(51.33)	(19.65)	
	b. Diluted EPS (Rs)	(0.14)	(0.05)	(0.21)	(0.86)	2.41	(19.22)	(7.84)	(3.50)	(51.33)	(19.69)	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Year ended Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Year ended Financial Results is available on the Company's website www.religare.com and Stock Exchanges' website www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Dr. Rashmi Saluja Place: New Delhi Date: May 25, 2022 Executive Chairperson

Phone: 011 - 40021400 | Fax Number - 011-40021401 | Website: www.religare.com | E-mail: investorservices@religare.com